

[@shahjahanpurpol](https://www.instagram.com/shahjahanpurpol)

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक-18.02.2021

एस.ओ.जी, साइबर सेल व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी।

साइबर ठगो पर कसा शिकंजा, 03 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार
लैपटाप, 10 अदद मोबाइल फोन, प्रिन्टर, 11 सिम कार्ड, 07 अदद
एटीएम/डेबिट कार्ड,
साइन डाट काम से सम्बन्धित दस्तावेज बरामद।

दिनांक 17.02.2021 को वादी श्री जावेद खाँ पुत्र अकील खाँ निवासी मो0 म0न0 59/8 आर टाइप फैक्ट्री स्टेट थाना सदरबाजार शाहजहाँपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.02.2021 को नौकरी डाट काम पर एक मोबाइल नम्बर द्वारा नौकरी का झाँसा देकर उसके क्रेडिट कार्ड से 77000-/- रुपये की ठगी की गयी सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 118/21 धारा 420 भादवि व 66 डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2008 पंजीकृत किया गया।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर साइबर ठगी के प्रकरण को गम्भीरता से लिया गया तथा श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी, साइबर सेल सहित क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम का गठन करते हुये साइबर ठगी के उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अनावरण करने हेतु क़डे दिशा निर्देश दिये गये एवं मानीटरिंग स्वयं की जाने लगी।

इसी क्रम में दिनांक 18.02.2021 को उपरोक्त प्रकरण में गठित टीम द्वारा सम्बन्धित अभियुक्तों 1. मो0 शाहफैज 2. यश 3. शुभम कुमार को ट्रेस करते हुये अपराध प्रमाणित होने पर हिरासत पुलिस में लिया गया एवं इनके कब्जे से साइबर ठगी से सम्बन्धित उपकरण बरामद किये गये । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-

1. मो0 शाहफैज पुत्र मो0 फाजिल नि0 गली न0-09 बजीराबाद नई दिल्ली उम्र 22 वर्ष
2. यश पुत्र ज्ञान प्रकाश तिवारी नि0 पोकिट-01 सेक्टर-24 रोहिणी थाना

बेगमपुर दिल्ली उम्र 22 वर्ष

3. शुभम कुमार पुत्र जसवीर सिंह निवासी मो0 अम्बेडकर नगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद लैफ्टाप
2. 01 अदद प्रिन्टर
3. 11 अदद सिम कार्ड
4. 07 अदद एटीएम / डेबिट कार्ड
5. साइन डाट काम से सम्बन्धित दस्तावेज
6. 02 अदद मोबाइल फोन घटना में प्रयुक्त
7. 08 अदद मोबिल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री सोम प्रकाश वर्मा प्रभारी निरीक्षक क्राइम ब्रांच शाह0
2. उ0नि0 श्री रोहित सिंह प्रभारी एसओजी शाह0
3. उ0नि0 मंगल सिंह थाना सदर बाजार शाह0
4. हे0का0 राजाराम एसओजी शाह0
5. हे0का0 उदयबीर एसओजी शाह0
6. का0 दिलीप कुमार एसओजी शाह0
7. का0 अजय कुमार एसओजी शाह0
8. का0 कुशल पाल एसओजी शाह0
9. का0 शिवम कुमार साइबर सेल शाह0